



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 13 फरवरी, 2024

माघ 24, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 321/81-2-2024-20(4)-2019

लखनऊ, 13 फरवरी, 2024

अधिसूचना

प0आ0-31

चूँकि ग्राम-सेन्दुरिया, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र का कुल 633.461 हेक्टेयर क्षेत्र, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927), जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है की धारा 4 के अधीन सरकारी अधिसूचना संख्या 23(3)-17/14-ख-68, दिनांक 02.08.1969 द्वारा अधिसूचित किया गया था;

और, चूँकि, जिला सोनभद्र में कैमूर पर्वत माला के दक्षिण में अवस्थित तहसील रावर्टसगंज (ओबरा) एवं दुद्धी के अधीन आने वाले, धारा 4 में अधिसूचित ग्रामों के सम्बन्ध में, रिट याचिका (क्रिमिनल) संख्या 1061 सन् 1982 (वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित दिनांक 20.11.1986 के विनिश्चय के अनुसार वन बन्दोबस्ती की कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें कुल 142.888 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के पक्ष में व्यवस्थापित की गयी;

और, चूँकि, वन विभाग के पक्ष में व्यवस्थापित कुल भूमि में से ग्राम सेन्दुरिया के आराजी गाटा सं० 1055 क मि० रकवा 0.253 हेक्टेयर क्षेत्र के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 227 के अधीन मामला संख्या 3668 सन् 2020 [रिट (सी) 24185 सन् 2019 से सम्बद्ध] माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है ;

और, चूँकि, कैमूर पर्वत माला के दक्षिण में अवस्थित ग्रामों की धारा 20 के अधीन अधिसूचना निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में एम०ए० संख्या 1855 सन् 2021 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम वनवासी सेवा आश्रम) रिट याचिका (क्रिमिनल) सं० 1061 सन् 1982 (वनवासी सेवा आश्रम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में दाखिल किया गया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली ने दिनांक 09-11-2022 को आदेश द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार को अधिसूचना जारी करने हेतु अनुज्ञात किया है;

और, चूँकि, अधिमान दावा हेतु नियत अवधि व्यपगत हो चुकी है ;

और, चूँकि, इसमें उपाबद्ध अनुसूची 'ख' में उल्लिखित सीमा के विस्तार तक, रियायत अनुज्ञात की गई है, जो राज्य सरकार के प्रसादानुसार वापस ली जा सकती है ;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से नीचे अनुसूची 'क' में उल्लिखित 142.635 हेक्टेयर भूमि आरक्षित बन होगा।

अनुसूची 'क'						
जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन ब्लाक	गाटा संख्या	रकबा (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
सोनभद्र	ओबरा	अगोरी	सेन्दुरिया	1	604ग	0.430
				2	124घ	8.461
				3	166ख	0.253
				3	166क	4.225
				4	256	0.202
				5	1257/408क	0.632
				6	311	0.240
				7	1053ख	1.012
				7	1055क	6.981
				7	1084	0.101
				7	1085ख	4.868
				8	1030	0.228
				8	1031क	109.070
				8	1036	0.013
				8	1037क	4.553
				8	1175	0.885
				9	1067ख	0.481
				योग-	17	142.635

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन प्रश्नगत 0.253 हेक्टेयर भूमि को कालान्तर में अन्तिम विधिक विनिश्चय के अनुरूप धारा 20 की अधिसूचना में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र होगी।

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सीमा विवरण, ग्राम-सेन्दुरिया, परगना-अगोरी, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र का सीमा विवरण							
स्तम्भ सं०.	स्तम्भ की स्थिति	स्तम्भ की दिशा	अग्रिम कोण	पार्श्व कोण	मापी गई दूरी जरीब में	सीमा के प्रकार	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
वन ब्लाक नं०-1							
1	गाटा सं०-593, 604 तथा 605 के तिमेड़ पर	द०पू०	94.00	274.00	5.20	सीधी रेखा	गाटा संख्या -608, 609 व 610 के तिमेड़ से अ०को० 299.00 पार्श्व कोण 119.00 दिशा उ०प० दूरी 9.20 जरीब पर वन ब्लाक नं०-1 के स्तम्भ सं० -1 कायम किया गया।
2	गाटा सं०-604 व 605 के मेड़ पर	द०प०	198.00	18.00	2.20	सीधी रेखा	
3	गाटा सं०-604 व 605 के मेड़ पर	उ०प०	271.00	91.00	4.60	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	गाटा सं0-593 व 604 के मेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	1.90	सीधी रेखा	
				योग	13.90	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक बन्द	
वन ब्लाक नं0-2							
1	गाटा सं0-1 व 124 के मेड़ पर	द0पू0	98.00	278.00	11.00	सीधी रेखा	बांध सं0-158, गाटा सं0-159, 131 के तिमेड़ से अ0कोण-273.30 पार्श्व कोण-93.30 दिशा उ0प0 दूरी-33.00 जरीब पर वन ब्लाक नं0-2 के स्तम्भ सं0-1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-124मि0 के अन्दर	द0प0	196.00	16.00	21.00	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-124 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	280.00	100.00	1.80	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-124 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	273.00	93.00	1.40	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-124 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	295.00	115.00	4.80	वक्र रेखा	
6	गाटा सं0-124 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	325.00	145.00	4.90	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-124 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	द0प0	266.00	86.00	1.50	सीधी रेखा	
8	गाटा सं0-1 व 124 तथा ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0पू0	35.00	215.00	6.40	सीधी रेखा	
9	गाटा सं0-1 व 124 के मेड़ पर	उ0पू0	18.00	198.00	8.00	सीधी रेखा	
10	गाटा सं0-1 व 124 के मेड़ पर	उ0पू0	18.00	198.00	2.00	सीधी रेखा	
				योग	62.80	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 2 बन्द	
वन ब्लाक नं0-3							
1	गाटा सं0- 145, 190 व 166 के तिमेड़ पर	द0पू0	105.00	285.00	0.50	सीधी रेखा	बांध सं0- 175, गाटा सं0-173, 174 के तिमेड़ से अ0कोण 290.00 पार्श्व कोर्ण 110.00 दिशा उ0प0 दूरी 5.50 जरीब पर वन ब्लाक नं0-3 के स्तम्भ सं0- 1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-190, 169 व 166 के तिमेड़ पर	द0प0	204.00	24.00	2.20	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-166 व 169 के मेड़ पर	द0पू0	122.00	302.00	0.40	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-166, 167 व 169 के तिमेड़ पर	द0प0	185.00	5.00	4.00	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-166 व 167 के मेड़ पर	द0पू0	124.00	304.00	1.60	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-166 व 167 के मेड़ पर	उ0पू0	38.00	218.00	3.60	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
7	गाटा सं0-166, 167 व 168 के तिमेड़ पर	उ0पू0	40.00	220.00	0.80	सीधी रेखा	
8	गाटा सं0-166 व 170 के मेड़ पर	उ0पू0	25.00	205.00	1.80	वक्र रेखा	
9	गाटा सं0-166, 170 व 174 के तिमेड़ पर	उ0पू0	76.00	256.00	0.80	सीधी रेखा	
10	गाटा सं0-166, 174 व 176 के तिमेड़ पर	द0पू0	129.00	309.00	1.40	सीधी रेखा	
11	गाटा सं0-166, 176 व 177 के तिमेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	1.60	सीधी रेखा	
12	गाटा सं0-166 व 177 के मेड़ पर	उ0पू0	34.00	214.00	1.00	सीधी रेखा	
13	गाटा सं0-166 व 178 के मेड़ पर	उ0पू0	45.00	225.00	1.90	सीधी रेखा	
14	गाटा सं0-166, 179 व 187 के तिमेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	0.80	सीधी रेखा	
15	गाटा सं0-166 व 187 के मेड़ पर	उ0पू0	75.00	255.00	3.00	सीधी रेखा	
16	गाटा सं0-166, 187 व 188 के तिमेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	0.60	सीधी रेखा	
17	गाटा सं0-188, 234 व 235 के तिमेड़ पर	द0प0	213.00	33.00	1.80	सीधी रेखा	
18	गाटा सं0-166 व 235 के मेड़ पर	उ0प0	279.00	99.00	0.60	सीधी रेखा	
19	गाटा सं0-166 व 235 के मेड़ पर	द0प0	218.00	38.00	1.40	सीधी रेखा	
19/1	गाटा सं0-166 व 235 के मेड़ पर	उ0प0	277.00	97.00	1.40	सीधी रेखा	
20	गाटा सं0-166 व 235 के मेड़ पर	द0प0	227.00	47.00	2.80	सीधी रेखा	
21	गाटा सं0-166 व 235 के मेड़ पर	द0पू0	131.00	311.00	1.00	सीधी रेखा	
22	गाटा सं0-166 व 235 के मेड़ पर	द0पू0	91.00	271.00	0.60	सीधी रेखा	
23	गाटा सं0-166, 235 व 166ग के तिमेड़ पर	द0प0	210.00	30.00	7.30	सीधी रेखा	
24	गाटा सं0-166क, 166ख व 166ग के तिमेड़ पर	उ0प0	281.00	101.00	7.20	सीधी रेखा	
25	गाटा सं0-166क व 166ख के मेड़ पर	द0प0	196.00	16.00	8.50	सीधी रेखा	
26	गाटा सं0-166क, 166ख व 163 के तिमेड़ पर	उ0प0	292.00	112.00	2.20	सीधी रेखा	
27	गाटा सं0-166क, 166ख व 162 के तिमेड़ पर	उ0प0	357.00	177.00	2.50	सीधी रेखा	
28	गाटा सं0-166क व 162 के मेड़ पर	उ0पू0	19.00	199.00	2.70	सीधी रेखा	
29	गाटा सं0-166क व 162 के मेड़ पर	उ0पू0	36.00	216.00	2.00	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
30	गाटा सं0-166क व 162 के मेड़ पर	उ0पू0	31.00	211.00	2.00	सीधी रेखा	
31	गाटा सं0-161, 156 व 166क के तिमेड़ पर	उ0पू0	22.00	202.00	4.60	सीधी रेखा	
32	गाटा सं0-153, 154 व 166क के तिमेड़ पर	उ0पू0	4.00	184.00	2.40	सीधी रेखा	
33	गाटा सं0-145, 152 व 166क के तिमेड़ पर	उ0पू0	30.00	210.00	2.40	सीधी रेखा	
				योग	79.40	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 3 बन्द	
वन ब्लाक नं0-4							
1	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	1.40	सीधी रेखा	वन ब्लाक नं0- 3 के स्तम्भ सं0 -24 से अ0को0 99.00 पार्श्व कोण 279.00 दिशा द0पू0 दूरी 17.40 जरीब पर वन ब्लाक नं0-04 के स्तम्भ सं0-1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	द0पू0	173.00	353.00	1.60	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	द0प0	190.00	10.00	0.60	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	द0प0	231.00		1.60	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	उ0प0	300.00	120.00	1.00	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	उ0पू0	9.00	189.00	1.40	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-256 व 257 के मेड़ पर	उ0पू0	32.00	212.00	1.40	सीधी रेखा	
				योग	9.00	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 4 बन्द	
वन ब्लाक नं0-5							
1	गाटा सं0-411 व 1257/408 के मेड़ पर	उ0पू0	79.00	259.00	1.40	सीधी रेखा	गाटा सं0- 417, 453, 456 के तिमेड़ से अ0को0 205.00 पार्श्व कोण 25.00 दिशा द0प0 दूरी 4.20 जरीब पर वन ब्लाक नं0 -5 के स्तम्भ सं0-1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-411 व 1257/408 के मेड़ पर	द0पू0	117.00	297.00	3.00	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-418, 1257/408 व 419 के तिमेड़ पर	द0पू0	159.00	339.00	0.60	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-408, 419, 422 व 1257/408 के चौमेड़ पर	द0प0	203.00	23.00	2.30	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-408 व 1257/408 के मेड़ पर	उ0प0	275.00	95.00	4.80	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	गाटा सं0-410 व 1257/408 के मेड़ पर	उ0पू0	8.00	188.00	2.00	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-411 व 1257/408 के मेड़ पर	उ0पू0	45.00	225.00	1.40	सीधी रेखा	
				योग	15.50	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 5 बन्द	
वन ब्लाक नं0-6							
1	गाटा सं0-305, 310 व 311 के तिमेड़ पर	द0पू0	116.00	296.00	1.80	सीधी रेखा	गाटा सं0- 305, 306, 309, 310 के चौमेड़ से अ0को0 120.00 पार्श्व कोण 300.00 दिशा द0पू0 दूरी 2.70 जरीब पर वन ब्लाक नं0 -6 के स्तम्भ सं0-1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-311, 310 व 314 के तिमेड़ पर	द0पू0	170.00	350.00	0.90	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-311 व 314 के मेड़ पर	द0पू0	130.00	310.00	0.80	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-311 व 314 के मेड़ पर	द0प0	200.00	20.00	1.40	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-301, 311 व 312 के तिमेड़ पर	उ0प0	284.00	104.00	2.40	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-301, 302, 304 व 311 के चौमेड़ पर	उ0पू0	12.00	192.00	1.80	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-304, 305 व 311 के तिमेड़ पर	उ0पू0	49.00	229.00	0.40	सीधी रेखा	
8	गाटा सं0-305 व 311 के मेड़ पर	उ0प0	350.00	170.00	0.70	सीधी रेखा	
				योग	10.20	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 6 बन्द	
वन ब्लाक नं0-7							
1	गाटा सं0-1055 के तरमीमी मेड़ पर	उ0पू0	3.00	183.00	2.20	सीधी रेखा	गाटा सं0- 1055, 1057, 1058 के तिमेड़ से अ0को0 318.00 पार्श्व कोण 138.00 दिशा उ0प0 दूरी 5.00 जरीब पर वन ब्लाक नं0 -7 के स्तम्भ सं0-1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-1052, 1055 के मेड़ पर	उ0पू0	88.00	268.00	2.40	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-1052, 1053 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	0.50	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0प0	317.00	137.00	0.70	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0प0	341.00	161.00	1.30	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0प0	285.00	105.00	1.90	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	1.80	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0प0	284.00	104.00	1.80	सीधी रेखा	
9	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0प0	275.00	95.00	1.50	सीधी रेखा	
10	गाटा सं0-1052 व 1053 के मेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	1.10	सीधी रेखा	
11	गाटा सं0-1051 व 1053 के मेड़ पर	उ0पू0	8.00	188.00	1.00	सीधी रेखा	
12	गाटा सं0-1051 व 1053 के मेड़ पर	उ0प0	308.00	128.00	1.40	सीधी रेखा	
13	गाटा सं0-1051 व 1053 के मेड़ पर	उ0पू0	58.00	238.00	0.70	सीधी रेखा	
14	गाटा सं0-942 व 943 व 1053 के तिमेड़ पर	द0पू0	112.00	292.00	3.80	सीधी रेखा	
15	गाटा सं0-942 व 1053 के मेड़ पर	द0पू0	117.00	297.00	1.00	सीधी रेखा	
16	गाटा सं0-942 व 1053 के मेड़ पर	उ0पू0	15.00	195.00	0.40	सीधी रेखा	
17	गाटा सं0-942 व 1053 के मेड़ पर	द0पू0	93.00	273.00	1.30	सीधी रेखा	
18	गाटा सं0-942 व 1053 के मेड़ पर	द0पू0	122.00	302.00	0.90	सीधी रेखा	
19	गाटा सं0-942 व 1053 के मेड़ पर	द0पू0	104.00	284.00	0.70	सीधी रेखा	
20	गाटा सं0-942, 1053 व 1054 के तिमेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	2.50	सीधी रेखा	
21	गाटा सं0-1053 व 1054 के मेड़ पर	द0पू0	110.00	290.00	0.40	सीधी रेखा	
22	गाटा सं0-1053 व 1054 के मेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	1.70	सीधी रेखा	
23	गाटा सं0-1053 व 1054 के मेड़ पर	द0प0	195.00	15.00	1.70	सीधी रेखा	
24	गाटा सं0-1053, 1054 व 1055 के तिमेड़ पर	द0पू0	106.00	286.00	1.50	सीधी रेखा	
25	गाटा सं0-1054 व 1055 के मेड़ पर	उ0पू0	12.00	192.00	2.60	सीधी रेखा	
26	गाटा सं0-1054 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	357.00	177.00	3.20	सीधी रेखा	
27	गाटा सं0-942, 1054 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	0.60	सीधी रेखा	
28	गाटा सं0-942 व 1055 के मेड़ पर	उ0पू0	30.00	210.00	1.00	सीधी रेखा	
29	गाटा सं0-911, 942 व 1055 के तिमेड़ पर	द0पू0	107.00	287.00	2.80	सीधी रेखा	
30	गाटा सं0-911 व 1055 के मेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	6.30	सीधी रेखा	
31	गाटा सं0-907, 908 व 1055 के तिमेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	1.40	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
32	गाटा सं0-907 व 1055 के मेड़ पर	द0पू0	144.00	324.00	3.40	सीधी रेखा	
33	गाटा सं0-1055 व 867 के मेड़ पर	द0पू0	110.00	290.00	0.80	सीधी रेखा	
34	गाटा सं0-1055 व 867 के मेड़ पर	उ0पू0	50.00	230.00	1.00	सीधी रेखा	
35	गाटा सं0-1055 व 867 के मेड़ पर	द0पू0	94.00	274.00	3.20	सीधी रेखा	
35/1	गाटा सं0-1055 के अन्दर तरमीमी मेंड पर	उ0पू0	5.00	185.00	1.50	सीधी रेखा	
35/2	गाटा सं0-1055 के अन्दर तरमीमी मेंड पर	प0प0	270.00	90.00	3.30	सीधी रेखा	
36	गाटा सं0-1055 व 867 के मेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	1.90	सीधी रेखा	
37	गाटा सं0-886, 887 व 1055 के तिमेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	7.00	सीधी रेखा	
38	गाटा सं0-885, 1055 व 1089 के तिमेड़ पर	द0पू0	170.00	350.00	0.30	सीधी रेखा	
39	गाटा सं0-1055 व 1089 के मेड़ पर	द0पू0	111.00	291.00	2.50	सीधी रेखा	
40	गाटा सं0-1089, 1085 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0पू0	65.00	245.00	0.60	सीधी रेखा	
41	गाटा सं0-1085, 1088 व 1089 के तिमेड़ पर	द0पू0	126.00	306.00	7.00	सीधी रेखा	
42	गाटा सं0-1088, 1086 व 1085 के तिमेड़ पर	द0पू0	126.00	306.00	3.10	सीधी रेखा	
43	गाटा सं0-1086 व 1085 के मेड़ पर	द0पू0	128.00	308.00	3.40	सीधी रेखा	
44	गाटा सं0-1086, 1085, 1084 व 1131 के चौमेड़ पर	द0प0	217.00	37.00	5.60	सीधी रेखा	
45	गाटा सं0-1083 व 1085 के मेड़ पर	द0प0	217.00	37.00	5.30	सीधी रेखा	
46	गाटा सं0-1081, 1082 व 1085 के तिमेड़ पर	उ0प0	323.00	143.00	3.60	सीधी रेखा	
47	गाटा सं0-1055, 1081 व 1085 के तिमेड़ पर	द0प0	237.00	57.00	3.90	सीधी रेखा	
48	गाटा सं0-1080, 1081 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0प0	312.00	132.00	0.60	सीधी रेखा	
49	गाटा सं0-1080 व 1055 के मेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	0.50	सीधी रेखा	
50	गाटा सं0-1080 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	274.00	94.00	1.60	सीधी रेखा	
51	गाटा सं0-1080 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	335.00	155.00	1.00	सीधी रेखा	
52	गाटा सं0-1079, 1080 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0प0	290.00	110.00	4.50	वक्र रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
53	गाटा सं0-1078, 1079 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0प0	321.00	141.00	0.50	सीधी रेखा	
54	गाटा सं0-1078 व 1055 के मेड़ पर	उ0पू0	17.00	197.00	0.50	सीधी रेखा	
55	गाटा सं0-1078 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	301.00	121.00	2.50	सीधी रेखा	
56	गाटा सं0-1077, 1078 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0प0	353.00	173.00	0.80	सीधी रेखा	
57	गाटा सं0-1077 व 1055 के मेड़ पर	उ0पू0	16.00	196.00	1.20	सीधी रेखा	
58	गाटा सं0-1076 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	284.00	104.00	0.60	सीधी रेखा	
59	गाटा सं0-1074, 1055 व 1075 के तिमेड़ पर	उ0पू0	31.00	211.00	1.60	सीधी रेखा	
60	गाटा सं0-1074 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	289.00	109.00	2.10	सीधी रेखा	
61	गाटा सं0-1073, 1072 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0प0	302.00	122.00	2.90	सीधी रेखा	
62	गाटा सं0-1055 व 1072 के मेड़ पर	द0प0	195.00	15.00	2.10	सीधी रेखा	
63	गाटा सं0-1072, 1071 व 1055 के तिमेड़ पर	प0प0	270.00	90.00	0.30	सीधी रेखा	
64	गाटा सं0-1055 व 1071 के मेड़ पर	द0प0	183.00	3.00	0.60	सीधी रेखा	
65	गाटा सं0-1055 व 1071 के मेड़ पर	द0पू0	117.00	297.00	0.40	सीधी रेखा	
66	गाटा सं0-1070, 1071 व 1055 के तिमेड़ पर	द0प0	212.00	32.00	4.00	सीधी रेखा	
67	गाटा सं0-1070, 1059 व 1055 के तिमेड़ पर	उ0प0	292.00	112.00	4.00	सीधी रेखा	
68	गाटा सं0-1059 व 1055 के मेड़ पर	उ0प0	295.00	115.00	5.40	सीधी रेखा	
69	गाटा सं0-1055 व 1057 के मेड़ पर	उ0प0	274.00	94.00	1.60	सीधी रेखा	
				योग	148.80	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लॉक 7 बन्द	
वन ब्लॉक नं0-8							
1	गाटा सं0-983 व 1037 के तरमीमी मेड़ पर	उ0प0	347.00	167.00	0.60	सीधी रेखा	गाटा सं0 986,987, 989 व 988 के चौमेड़ से अ0को0 75.00 पार्श्व कोण 255.00 दिशा उ0पू0 दूरी 3.20 जरीब पर वन ब्लॉक नं0-08 के स्तम्भ सं0-1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-982, 983 व 1037 के तिमेड़ पर	उ0पू0	80.00	260.00	0.80	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-982 व 1037 के मेड़ पर	उ0पू0	32.00	212.00	1.50	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	गाटा सं0-969, 982 व 1037 के तिमेड़ पर	उ0पू0	49.00	229.00	6.30	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-966, 969 व 1037 के तिमेड़ पर	उ0पू0	65.00	245.00	1.10	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	द0पू0	157.00	337.00	0.50	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0पू0	32.00	212.00	5.80	सीधी रेखा	
8	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0पू0	40.00	220.00	2.00	सीधी रेखा	
9	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0पू0	12.00	192.00	2.00	सीधी रेखा	
10	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0प0	275.00	95.00	2.00	सीधी रेखा	
11	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	द0प0	225.00	45.00	0.50	सीधी रेखा	
12	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	द0प0	200.00	20.00	0.60	सीधी रेखा	
13	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0प0	280.00	100.00	1.00	सीधी रेखा	
14	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0पू0	43.00	223.00	0.80	सीधी रेखा	
15	गाटा सं0-966 व 1037 के मेड़ पर	उ0पू0	48.00	228.00	4.30	सीधी रेखा	
16	गाटा सं0-1037 व 951 के मेड़ पर	उ0पू0	69.00	249.00	2.70	सीधी रेखा	
17	गाटा सं0-951, 945, 1037 व 947 के चौमेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	1.80	सीधी रेखा	
18	गाटा सं0-1037 व 945 के मेड़ पर	द0प0	183.00	3.00	2.50	सीधी रेखा	
19	गाटा सं0-1037 व 945 के मेड़ पर	प0प0	270.00	90.00	0.30	सीधी रेखा	
20	गाटा सं0-1037 व 945 के मेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	0.40	सीधी रेखा	
21	गाटा सं0-1037 व 945 के मेड़ पर	द0पू0	102.00	282.00	2.20	सीधी रेखा	
22	गाटा सं0-1037, 1038 व 945 के तिमेड़ पर	द0प0	187.00	7.00	1.90	सीधी रेखा	
23	गाटा सं0-1037 व 1038 के मेड़ पर	द0प0	260.00	80.00	1.20	सीधी रेखा	
24	गाटा सं0-1037 व 1038 के मेड़ पर	द0प0	226.00	46.00	2.00	वक्र रेखा	
25	गाटा सं0-1037 व 1038 के मेड़ पर	द0प0	205.00	25.00	1.60	वक्र रेखा	
26	गाटा सं0-1037 व 1038 के मेड़ पर	द0प0	184.00	4.00	1.70	वक्र रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
27	गाटा सं0-1037 व 1038 के मेड़ पर	द0पू0	142.00	322.00	2.00	वक्र रेखा	
28	गाटा सं0-1037 व 1038 के मेड़ पर	द0पू0	156.00	336.00	3.50	सीधी रेखा	
29	गाटा सं0-1033, 1037 व 1038 के तिमेड़ पर	द0प0	265.00	85.00	1.40	सीधी रेखा	
30	गाटा सं0-1034, 1035 व 1037 के तिमेड़ पर	उ0प0	327.00	147.00	1.00	सीधी रेखा	
31	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0प0	267.00	87.00	1.00	सीधी रेखा	
32	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0प0	203.00	23.00	0.70	सीधी रेखा	
33	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	प0प0	270.00	90.00	1.70	सीधी रेखा	
34	गाटा सं0-1035 व 1036 के मेड़ पर	उ0प0	353.00	173.00	1.10	सीधी रेखा	
35	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	उ0प0	287.00	107.00	1.10	सीधी रेखा	
36	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0प0	206.00	26.00	2.20	सीधी रेखा	
37	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0पू0	171.00	351.00	1.10	सीधी रेखा	
38	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0पू0	119.00	299.00	1.80	सीधी रेखा	
39	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	1.50	वक्र रेखा	
40	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0पू0	134.00	314.00	0.80	सीधी रेखा	
41	गाटा सं0-1035 व 1037 के मेड़ पर	द0प0	228.00	48.00	2.50	सीधी रेखा	
42	गाटा सं0-1037, 1035 व 1031 के तिमेड़ पर	द0पू0	133.00	313.00	2.30	सीधी रेखा	
43	गाटा सं0-1035 व 1031 के मेड़ पर	द0पू0	156.00	336.00	3.60	सीधी रेखा	
44	गाटा सं0-1035 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	73.00	253.00	1.20	सीधी रेखा	
45	गाटा सं0-1035 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	46.00	226.00	3.50	सीधी रेखा	
46	गाटा सं0-1035 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	83.00	263.00	3.60	सीधी रेखा	
47	गाटा सं0-1035 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	51.00	231.00	2.40	सीधी रेखा	
48	गाटा सं0-1035 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	358.00	178.00	2.00	सीधी रेखा	
49	गाटा सं0-1031 व 1045 के मेड़ पर	उ0पू0	58.00	238.00	0.40	सीधी रेखा	
50	गाटा सं0-1045, 1046, 1031 के तिमेड़ पर	द0पू0	118.00	298.00	6.20	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
51	गाटा सं0-1049, 1055 व 1031 के तिमेड़ पर	द0पू0	135.00	315.00	6.90	सीधी रेखा	
52	गाटा सं0-1055, 1031 व 1063 के तिमेड़ पर	द0प0	194.00	14.00	0.40	सीधी रेखा	
53	गाटा सं0-1031 व 1063 के मेड़ पर	द0पू0	127.00	307.00	1.60	सीधी रेखा	
54	गाटा सं0-1031 व 1063 के मेड़ पर	उ0पू0	59.00	239.00	2.80	सीधी रेखा	
55	गाटा सं0-1031 व 1063 के मेड़ पर	उ0पू0	45.00	225.00	1.80	सीधी रेखा	
56	गाटा सं0-1031 व 1063 के मेड़ पर	द0पू0	117.00	297.00	7.00	सीधी रेखा	
57	गाटा सं0-1031 मि0 के अन्दर	द0पू0	113.00	293.00	6.00	सीधी रेखा	
58	गाटा सं0-1031 मि0 के अन्दर	उ0पू0	28.00	208.00	1.00	सीधी रेखा	
59	गाटा सं0-1064 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	67.00	247.00	1.50	सीधी रेखा	
60	गाटा सं0-1064 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	38.00	218.00	2.80	वक्र रेखा	
61	गाटा सं0-1031, 1064 व 1067 के तिमेड़ पर	उ0पू0	80.00	260.00	1.20	सीधी रेखा	
62	गाटा सं0-1031 व 1067 के मेड़ पर	उ0पू0	56.00	236.00	1.00	सीधी रेखा	
63	गाटा सं0-1031, 1121 व 1067 के तिमेड़ पर	द0पू0	176.00	356.00	1.40	सीधी रेखा	
64	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	द0प0	198.00	18.00	3.50	सीधी रेखा	
65	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	द0प0	205.00	25.00	2.00	सीधी रेखा	
66	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	द0प0	215.00	35.00	2.20	सीधी रेखा	
67	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	0.40	सीधी रेखा	
68	गाटा सं0-1031, 1121 व 1030 के तिमेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	1.00	सीधी रेखा	
69	गाटा सं0-1030 व 1121 के मेड़ पर	उ0पू0	45.00	225.00	0.60	सीधी रेखा	
70	गाटा सं0-1030 व 1121 के मेड़ पर	द0पू0	136.00	316.00	0.50	सीधी रेखा	
71	गाटा सं0-1030 व 1121 के मेड़ पर	द0प0	193.00	13.00	2.50	सीधी रेखा	
72	गाटा सं0-1030, 1029 व 1121 के तिमेड़ पर	उ0प0	297.00	117.00	0.60	सीधी रेखा	
73	गाटा सं0-1029 व 1030 के मेड़ पर	द0प0	210.00	30.00	0.50	सीधी रेखा	
74	गाटा सं0-1031, 1030 व 1029 के तिमेड़ पर	द0पू0	105.00	285.00	0.60	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
75	गाटा सं0-1029, 1121 व 1031 के तिमेड़ पर	द0प0	195.00	15.00	3.20	सीधी रेखा	
76	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	द0पू0	122.00	302.00	1.20	सीधी रेखा	
77	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	द0प0	222.00	42.00	2.60	सीधी रेखा	
78	गाटा सं0-1031 व 1121 के मेड़ पर	द0प0	196.00	16.00	3.40	सीधी रेखा	
79	गाटा सं0-1075, 1121 व 1265/1173 के तिमेड़ पर	उ0प0	325.00	145.00	2.40	सीधी रेखा	
80	गाटा सं0-1265/1173 व 1175 के मेड़ पर	द0प0	234.00	54.00	1.60	सीधी रेखा	
81	गाटा सं0-1265/1173, 1174 व 1175 के तिमेड़ पर	उ0प0	318.00	138.00	0.70	सीधी रेखा	
82	गाटा सं0-1175 व 1174 के मेड़ पर	उ0पू0	17.00	197.00	2.00	सीधी रेखा	
83	गाटा सं0-1175 व 1174 के मेड़ पर	द0प0	220.00	40.00	4.60	सीधी रेखा	
84	गाटा सं0-1175 व 1174 के मेड़ पर	द0पू0	155.00	335.00	2.80	सीधी रेखा	
85	गाटा सं0-1175 व 1265/1173 के मेड़ पर	द0प0	240.00	60.00	0.70	सीधी रेखा	
86	गाटा सं0-1175 व 1265/1173 के तिमेड़ पर	उ0प0	285.00	105.00	0.70	सीधी रेखा	
87	गाटा सं0-1175 व 1265/1173 के मेड़ पर	द0प0	235.00	55.00	2.80	सीधी रेखा	
88	गाटा सं0-1175 व 1265/1173 के मेड़ पर	द0पू0	163.00	343.00	1.80	सीधी रेखा	
89	गाटा सं0-1175 व 1265/1173 व 1180 के तिमेड़ पर	द0प0	205.00	25.00	3.40	सीधी रेखा	
90	गाटा सं0-1175 व 1180 की मेड़ पर	द0प0	251.00	71.00	3.00	सीधी रेखा	
91	गाटा सं0-1175 व 1180 की मेड़ पर	उ0प0	281.00	101.00	0.60	सीधी रेखा	
92	गाटा सं0-1175 व 1180 की मेड़ पर	द0पू0	128.00	308.00	0.90	सीधी रेखा	
93	गाटा सं0-1175 व 1180 की मेड़ पर	द0प0	197.00	17.00	8.90	सीधी रेखा	
94	गाटा सं0-1175, 1180 व 1179 के तिमेड़ पर	द0प0	210.00	30.00	1.40	सीधी रेखा	
95	गाटा सं0-1175, 1180 व 1179 के तिमेड़ पर	द0प0	212.00	32.00	4.00	सीधी रेखा	
96	गाटा सं0-1175, व 1180 के मेड़ पर	द0प0	211.00	31.00	7.20	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
97	गाटा सं0-1175 व 1180 की सीमा पर	द0प0	244.00	64.00	3.00	सीधी रेखा	
98	गाटा सं0-1175 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	द0प0	267.00	87.00	1.00	सीधी रेखा	
99	गाटा सं0-1175, 1027 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0उ0	360.00	180.00	0.50	सीधी रेखा	
100	गाटा सं0-1175, 1027 व 1031 के तिमेडा पर	द0प0	278.00	98.00	1.90	सीधी रेखा	
101	गाटा सं0-1027 व 1031 के मेड़ पर	द0द0	180.00	360.00	0.90	सीधी रेखा	
102	गाटा सं0-1027, 1031 व ग्राम बरदिया की सीमा पर	द0प0	268.00	88.00	6.80	सीधी रेखा	
103	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	द0प0	245.00	65.00	6.70	सीधी रेखा	
104	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	271.00	91.00	4.60	सीधी रेखा	
105	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	द0प0	200.00	20.00	3.20	सीधी रेखा	
106	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	द0प0	244.00	64.00	3.90	सीधी रेखा	
107	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	298.00	118.00	13.20	सीधी रेखा	
108	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	349.00	169.00	2.20	सीधी रेखा	
109	गाटा सं0-1031 व ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0प0	297.00	117.00	7.80	सीधी रेखा	
110	गाटा सं0-1031 व 1026 ग्राम बरदिया के सीमा पर	उ0पू0	5.00	185.00	3.60	सीधी रेखा	
111	गाटा सं0-1031 व 1026 के मेड़ पर	उ0प0	280.00	100.00	6.50	सीधी रेखा	
112	गाटा सं0-1026, 528 व 1031 के तिमेडा पर	उ0पू0	6.00	186.00	1.20	सीधी रेखा	
113	गाटा सं0-528 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	46.00	226.00	1.80	सीधी रेखा	
114	गाटा सं0-1025, 528 व 1031 के तिमेडा पर	द0पू0	118.00	298.00	1.40	सीधी रेखा	
115	गाटा सं0-1025 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	60.00	240.00	0.80	सीधी रेखा	
116	गाटा सं0-1024, 1025 व 1031 के तिमेडा पर	द0पू0	110.00	290.00	2.50	सीधी रेखा	
117	गाटा सं0-1024 व 1031 के मेड़ पर	द0पू0	121.00	301.00	1.40	सीधी रेखा	
118	गाटा सं0-1022 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	52.00	232.00	1.60	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
119	गाटा सं0-1024 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	88.00	268.00	1.70	सीधी रेखा	
120	गाटा सं0-1022, 1024 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	80.00	260.00	1.50	सीधी रेखा	
121	गाटा सं0-1022 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	24.00	204.00	1.00	सीधी रेखा	
122	गाटा सं0-1021, 1022 व 1031 के तिमेड़ पर	द0पू0	116.00	296.00	2.00	सीधी रेखा	
123	गाटा सं0-1021 व 1031 के मेड़ पर	द0पू0	116.00	296.00	2.00	सीधी रेखा	
124	गाटा सं0-1021 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	5.00	185.00	1.80	सीधी रेखा	
125	गाटा सं0-1020 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	310.00	130.00	2.00	सीधी रेखा	
126	गाटा सं0-1018, 1019, 1020 व 1031 के चौमेड़ा पर	उ0पू0	95.00	275.00	1.20	सीधी रेखा	
127	गाटा सं0-1018 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	50.00	230.00	1.80	सीधी रेखा	
128	गाटा सं0-1018, 1017 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	12.00	192.00	0.60	सीधी रेखा	
129	गाटा सं0-1017 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	309.00	129.00	4.20	सीधी रेखा	
130	गाटा सं0-1016, 1017 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	15.00	195.00	2.60	सीधी रेखा	
131	गाटा सं0-1016, 1014 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0प0	318.00	138.00	1.50	सीधी रेखा	
132	गाटा सं0-1014, 1013 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	5.00	185.00	1.40	सीधी रेखा	
133	गाटा सं0-1012, 1013 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	9.00	189.00	2.30	सीधी रेखा	
134	गाटा सं0-1011, 1012 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	2.30	सीधी रेखा	
135	गाटा सं0-1010, 1011 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0प0	338.00	158.00	2.00	सीधी रेखा	
136	गाटा सं0-1010 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	308.00	128.00	2.00	सीधी रेखा	
137	गाटा सं0-1009, 1010 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	20.00	200.00	1.80	सीधी रेखा	
138	गाटा सं0-1009, 1008 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	24.00	204.00	3.00	सीधी रेखा	
139	गाटा सं0-1008 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	298.00	118.00	1.50	सीधी रेखा	
140	गाटा सं0-1007, 1008 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	76.00	256.00	1.70	सीधी रेखा	
141	गाटा सं0-1007 व 1031 के मेड़ पर	उ0उ0	360.00	180.00	0.70	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
142	गाटा सं0-1006, 1007 व 1031 के तिमेड़ पर	द0पू0	105.00	285.00	2.60	सीधी रेखा	
143	गाटा सं0-1006 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	20.00	200.00	7.20	सीधी रेखा	
144	गाटा सं0-999 व 1031 के मेड़ पर	द0पू0	103.00	283.00	6.00	सीधी रेखा	
145	गाटा सं0-999 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	83.00	263.00	2.00	सीधी रेखा	
146	गाटा सं0-999 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	347.00	167.00	2.70	सीधी रेखा	
147	गाटा सं0-999 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	30.00	210.00	2.10	सीधी रेखा	
148	गाटा सं0- 999 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	39.00	219.00	1.80	सीधी रेखा	
149	गाटा सं0-998, 999 व 1031 के तिमेड़ पर	उ0पू0	49.00	229.00	1.70	सीधी रेखा	
150	गाटा सं0- 997 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	23.00	203.00	4.80	सीधी रेखा	
151	गाटा सं0-997,1031 व 1037 के तिमेड़ पर	उ0प0	320.00	140.00	10.00	सीधी रेखा	
				योग	366.40	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 8 बन्द	
वन ब्लाक नं0-9							
1	गाटा सं0-1065 व 1067 के मेड़ पर	उ0प0	349.00	169.00	1.10	सीधी रेखा	वन ब्लाक नं0- 8 के स्तम्भ सं0 61 से अ0को0 334.00 पार्श्व कोण 154.00 दिशा उ0प0- दूरी 3.70 जरीब पर वन ब्लाक न0 -09 के स्तम्भ सं0-1 स्थापित हुआ हैं।
2	गाटा सं0-1065 व 1067 के मेड़ पर	उ0पू0	43.00	223.00	1.20	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-1065 व 1067 के मेड़ पर	उ0प0	336.00	156.00	1.20	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-1065, 1067 व 1068 के तिमेड़ पर	उ0पू0	38.00	218.00	1.70	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-1067 व 1068 के मेड़ पर	द0पू0	114.00	294.00	0.70	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-1067 व 1068 के मेड़ पर	पू0पू0	90.00	270.00	1.20	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-1067 व 1068 के मेड़ पर	द0पू0	113.00	293.00	0.80	सीधी रेखा	
8	गाटा सं0-1067 व 1068 के मेड़ पर	द0पू0	167.00	347.00	0.60	सीधी रेखा	
9	गाटा सं0-1067 व 1068 के मेड़ पर	द0प0	189.00	9.00	3.30	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	गाटा सं0-1067मि0 के अन्दर	उ0प0	276.00	96.00	2.30	सीधी रेखा	
				योग	14.10	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर वन ब्लाक 9 बन्द	
कास्त चक नं0-01							
1	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	द0पू0	129.00	309.00	0.70	सीधी रेखा	वन ब्लाक नं0 8 के स्तम्भ सं0 5 से अ0को0 114.00 पार्श्व कोण 294.00 दिशा द0पू0 - दूरी 0.50 जरीब पर कास्त चक नं0 1 के स्तम्भ सं0 1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	द0प0	211.00	31.00	3.30	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	द0पू0	131.00	311.00	1.90	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	द0प0	191.00	11.00	2.70	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	द0प0	208.00	28.00	2.40	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	उ0प0	305.00	125.00	4.70	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	उ0पू0	36.00	216.00	2.70	सीधी रेखा	
8	गाटा सं0-1037 मि0 के अन्दर	उ0पू0	40.00	220.00	5.50	सीधी रेखा	
				योग	23.90	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर कास्त चक 1 बन्द	
कास्त चक नं0-02							
1	गाटा सं0-1055 मि0 के अन्दर	उ0पू0	28.00	208.00	2.00	सीधी रेखा	वन ब्लाक नं0 8 के स्तम्भ सं0 62 से अ0को0 100.00 पार्श्व कोण 280.00 दिशा पू0द0 दूरी 4.20 जरीब पर कास्त चक नं0 2 के स्तम्भ सं0 1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-1055 मि0 के अन्दर	द0पू0	115.00	295.00	2.90	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-1055 मि0 के अन्दर	उ0पू0	23.00	203.00	3.20	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-1055 व 1085 के मेड़ पर	द0पू0	151.00	331.00	5.40	सीधी रेखा	
5	गाटा सं0-1055 व 1085 के मेड़ पर	द0प0	215.00	35.00	5.80	सीधी रेखा	
6	गाटा सं0-1055 मि0 के अन्दर	उ0प0	315.00	135.00	4.10	सीधी रेखा	
7	गाटा सं0-1055 मि0 के अन्दर	उ0पू0	36.00	216.00	1.90	सीधी रेखा	

1	2	3	4	5	6	7	8
8	गाटा सं0-1055 मि0 के अन्दर	उ0प0	299.00	119.00	2.60	सीधी रेखा	
				योग	27.90	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर कास्त चक 2 बन्द	
कास्त चक नं0-03							
1	गाटा सं0-1028 व 1031 के मेड़ पर	उ0पू0	51.00	231.00	1.70	सीधी रेखा	वन ब्लाक नं0 8 के स्तम्भ सं0 85 से अ0को0 346.00 पार्श्व कोण 166.00 दिशा उ0प0 दूरी 6.00 जरीब पर कास्त चक नं0 3 के स्तम्भ सं0 1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-1028 व 1031 के मेड़ पर	द0पू0	126.00	306.00	1.70	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-1028 व 1031 के मेड़ पर	द0प0	218.00	38.00	2.00	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-1028 व 1031 के मेड़ पर	उ0प0	312.00	132.00	2.10	सीधी रेखा	
				योग	7.50	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर कास्त चक 3 बन्द	
कास्त चक नं0-04							
1	गाटा सं0-1031 मि0 के अन्दर	उ0प0	300.00	120.00	1.30	सीधी रेखा	वन ब्लाक नं0 8 के सीमा स्तम्भ सं0 83 से अ0को0 293.00 पार्श्व कोण 113.00 दिशा उ0 प0 - दूरी 2.90 जरीब पर कास्त चक नं0 4 के स्तम्भ सं0 1 कायम किया गया।
2	गाटा सं0-1031 मि0 के अन्दर	उ0उ0	360.00	180.00	2.00	सीधी रेखा	
3	गाटा सं0-1031 मि0 के अन्दर	द0पू0	120.00	300.00	1.30	सीधी रेखा	
4	गाटा सं0-1031 मि0 के अन्दर	द0द0	180.00	360.00	2.00	सीधी रेखा	
				योग	6.60	स्तम्भ सं0-1 से मिलकर कास्त चक 4 बन्द	

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

अनुसूची 'ख'

ग्राम-सेन्दुरिया, परगना-अगोरी, तहसील-ओबरा, जिला-सोनभद्र

1	वन ब्लाक का नाम अथवा संख्या जिसके खुले भाग में दिये गए अधिकार प्रयोग किए जा सकते हैं	
2	परगना का नाम	अगोरी
3-	ग्राम का नाम जिसमें रियायतें प्राप्त हैं	सेन्दुरिया
3- अ	मकानों की संख्या	325
3- ब	जनसंख्या	2365
3- स	परिवारों की संख्या	337
3- द	हलों की संख्या	10
4	निःशुल्क चरने वाले पशुओं की संख्या	225
5	मकानों के लिए चीड़ या साल	-
5- अ	मकानों के लिए अन्य लकड़ी	-
6	कृषि के लिए लकड़ी	-
7	सूखी जलाने की लकड़ी (सर बोझा)	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
8	लोहारों के लिए कोयले की मात्रा	-
9	अन्य प्रकार की लकड़ी	-
10	चारे की घास	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
11	बिक्री के लिए चारे की घास	-
12	छप्पर छाने के लिए घास	सुविधा (यदि उपलब्ध हो)
13	भावर/मूँज	-
14	चारे के लिए हरी पत्तियां	-
15	सूखी पत्तियां	-
16	फल तथा जड़े	-
17	छालें आदि	-
18	बॉस (कोड़ीया) प्रतिवर्ष	-
19	इमारती पत्थर	-
20	स्लेट का पत्थर	-
21	चूने का पत्थर	-
22	सिंचाई के लिए नालियां	-
23	मिलों के लिए पानी	-
24	मत्स्य आखेट	-
25	श्मशान घाट	-
26	अभियुक्ति	-

आज्ञा से,
मनोज सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 321/LXXXI-2-2024-20(04)-2019, dated February 13, 2024.

No. 321/LXXXI-2-2024-20(4)-2019

Dated Lucknow, February 13, 2024

WHEREAS total area of 633.461 hectares of village Senduriya, Tehsil Obra, District Sonbhadra was notified *vide* Government Notification no. 23(3)-17/14-Kh-68, dated 02.08.1969 under section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927), hereinafter referred to as the "said Act";

AND, WHEREAS, in relation to the villages notified in section 4 falling under Tehsil Robertsganj (Obra) and Duddhi, located to the south of the Kaimur mountain range in Sonbhadra district, forest settlement proceedings were conducted in accordance with the decision dated 20.11.1986 passed by the Hon'ble Supreme Court, New Delhi in Writ Petition (Criminal) no.1061 of 1982 (Banvasi Seva Ashram vs. State of U.P. and others) wherein a total of 142.888 hectares of land was settled in favour of the Forest Department;

AND, WHEREAS, out of the total land settled in favour the Forest Department, regarding Araj Gata no. 1055 K mi Area 0.253 hectare area of village Senduriya, Matters under Article. 227 no. 3668 of 2020 [connected with Writ (C) 24185 of 2019] is under consideration in the Hon'ble High Court, Allahabad;

AND, WHEREAS, in relation to the issuance of notification under section 20 of the villages located south of the Kaimur mountain range, M.A no. 1855 of 2021 (State of Uttar Pradesh Government vs. Banvasi Seva Ashram) was filed in Writ Petition (Criminal)no. 1061 of 1982 (Banvasi Seva Ashram vs. State of U.P and others) by the Government of Uttar Pradesh in the Hon'ble Supreme Court, New Delhi, in which the Hon'ble Supreme Court *vide* order dated 09.11.2022 has permitted the State Government to issue a notification under section 20 of the said Act;

AND, WHEREAS, the period fixed for preferring claims has elapsed;

AND, WHEREAS, the concession to the extent of the limit mentioned in Schedule 'B' annexed herewith has been allowed which may be withdrawn at the pleasure of the State Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under section 20 of the said Act, the Governor is pleased to declare that 142.635 hectares of land mentioned in Schedule 'A' below, shall be the Reserve Forest with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette*;

Schedule-‘A’						
District	Tehsil	Pargana	Village	Forest Block	Plot No.	Area (in Hactare)
1	2	3	4	5	6	7
Sonbhadra	Obra	Agori	Senduriya	1	604G	0.430
				2	124GH	8.461
				3	166KH	0.253
				3	166 K	4.225
				4	256	0.202
				5	1257/408K	0.632
				6	311	0.240
				7	1053Kh	1.012
				7	1055K	6.981
				7	1084	0.101
				7	1085KH	4.868
				8	1030	0.228

1	2	3	4	5	6	7
				8	1031K	109.070
				8	1036	0.013
				8	1037K	4.553
				8	1175	0.885
				9	1067KH	0.481
Total					17	142.635

In due course of time, the State Government will be free to include the 0.253 hectares of land in question under consideration in the Hon'ble High Court of Allahabad in the notification of section 20 as per the final legal decision.

By order,
MANOJ SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

Boundary Description

Details of Boundary of Village-Senduriya, Pargana-Agori, Tehsil-Obra, District- Sonbhadra.							
No. of pillar	Position of pillar	Nearest direction from the second pillar	Forward Bearing	Back Bearing	Approx, distance upto the second pillar chain	Kind of boundary upto secondary pillar	Description
1	2	3	4	5	6	7	8
FOREST BLOCK NO. 1							
1	On the trijunction of plot no.593, 604 & 605	S.E.	94.00	274.00	5.20	Straight line	The measurement start from the trijunction of plot no.608, 609 & 610 F.B.299.00, B.B.119.00, Direction N.W. distance 9.20 through to chain fix pillar no.01 of forest block no.1
2	On the common boundary of the plot no.604 & 605	S.W.	198.00	18.00	2.20	Straight line	
3	On the common boundary of the plot no.604 & 605	N.W.	271.00	91.00	4.60	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
4	On the common boundary of the plot no.593 & 604	N.N.	360.00	180.00	1.90	Straight line	
				Total	13.90	FOREST BLOCK NO. 1 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 2							
1	On the common boundary of the plot no.1 & 124	S.E.	98.00	278.00	11.00	Straight line	The measurement start from the trijunction of plot no.159,131 & Dam no.158 F.B.273.30, B.B.93.30, Direction N.W. distance 33.00 through to chain fix pillar no.01 of forest block no.02
2	Inside the Plot No. 124Mi.	S.W.	196.00	16.00	21.00	Straight line	
3	On the border of village Bardiya & plot no.124	N.W.	280.00	100.00	1.80	Straight line	
4	On the border of village Bardiya & plot no.124	N.W.	273.00	93.00	1.40	Straight line	
5	On the border of village Bardiya & plot no.124	N.W.	295.00	115.00	4.80	Straight line	
6	On the border of village Bardiya & plot no.124	N.W.	325.00	145.00	4.90	Straight line	
7	On the border of village Bardiya & plot no.124	S.W.	266.00	86.00	1.50	Straight line	
8	On the border of village Bardiya & plot no.1 & 124	N.E.	35.00	215.00	6.40	Straight line	
9	On the common boundary of plot no.1 & 124	N.E.	18.00	198.00	8.00	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
10	On the common boundary of plot no.1 & 124	N.E.	18.00	198.00	2.00	Straight line	
				Total	62.80	FOREST BLOCK NO. 2 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 3							
1	On the trijunction of plot no.145, 190 & 166	S.E.	105.00	285.00	0.50	Straight line	The measurement start from the trijunction of plot no. 173, 174 & Dam no. 175, F.B. 290.00, B.B.110.00, Direction N.W. distance 5.50 through to chain fix pillar no. 01 of forest block-03
2	On the trijunction of plot no.190, 169 & 166	S.W.	204.00	24.00	2.20	Straight line	
3	On the common boundary of plot no.166 & 169	S.E.	122.00	302.00	0.40	Straight line	
4	On the trijunction of plot no.166, 167 & 169	S.W.	185.00	5.00	4.00	Straight line	
5	On the common boundary of plot no.166 & 167	S.E.	124.00	304.00	1.60	Straight line	
6	On the common boundary of plot no.166 & 167	N.E.	38.00	218.00	3.60	Straight line	
7	On the trijunction of plot no.166, 167 & 168	N.E.	40.00	220.00	0.80	Straight line	
8	On the common boundary of plot no.166 & 170	N.E.	25.00	205.00	1.80	Straight line	
9	On the trijunction of plot no.166, 170 & 174	N.E.	76.00	256.00	0.80	Straight line	
10	On the trijunction of plot no.166, 174 & 176	S.E.	129.00	309.00	1.40	Straight line	
11	On the trijunction of plot no.166, 176 & 177	E.E.	90.00	270.00	1.60	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
12	On the common boundary of plot no.166 & 177	N.E.	34.00	214.00	1.00	Straight line	
13	On the common boundary of plot no.166 & 178	N.E.	45.00	225.00	1.90	Straight line	
14	On the trijunction of plot no.166, 179 & 187	E.E.	90.00	270.00	0.80	Straight line	
15	On the common boundary of plot no.166 & 187	N.E.	75.00	255.00	3.00	Straight line	
16	On the trijunction of plot no.166, 187 & 188	E.E.	90.00	270.00	0.60	Straight line	
17	On the trijunction of plot no.188, 234 & 235	S.W.	213.00	33.00	1.80	Straight line	
18	On the common boundary of plot no.166 & 235	N.W.	279.00	99.00	0.60	Straight line	
19	On the common boundary of plot no.166 & 235	S.W.	218.00	38.00	1.40	Straight line	
19/1	On the common boundary of plot no.166 & 235	N.W.	277.00	97.00	1.40	Straight line	
20	On the common boundary of plot no.166 & 235	S.W.	227.00	47.00	2.80	Straight line	
21	On the common boundary of plot no.166 & 235	S.E.	131.00	311.00	1.00	Straight line	
22	On the common boundary of plot no.166 & 235	S.E.	91.00	271.00	0.60	Straight line	
23	On the trijunction of plot no.166, 235 & 166G	S.W.	210.00	30.00	7.30	Straight line	
24	On the trijunction of plot no.166K, 166Kh & 166G	N.W.	281.00	101.00	7.20	Straight line	
25	On the common boundary of plot no.166K & 166Kh	S.W.	196.00	16.00	8.50	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
26	On the trijunction of plot no.166K, 166Kh & 163	N.W.	292.00	112.00	2.20	Straight line	
27	On the trijunction of plot no.166K, 166Kh & 162	N.W.	357.00	177.00	2.50	Straight line	
28	On the common boundary of plot no.166K & 162	N.E.	19.00	199.00	2.70	Straight line	
29	On the common boundary of plot no.166K & 162	N.E.	36.00	216.00	2.00	Straight line	
30	On the common boundary of plot no.166K & 162	N.E.	31.00	211.00	2.00	Straight line	
31	On the trijunction of plot no.161, 156 & 166K	N.E.	22.00	202.00	4.60	Straight line	
32	On the trijunction of plot no.153, 154 & 166K	N.E.	4.00	184.00	2.40	Straight line	
33	On the trijunction of plot no.145, 152 & 166K	N.E.	30.00	210.00	2.40	Straight line	
				Total	79.40	FOREST BLOCK NO. 3 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 4							
1	On the common boundary of plot no.256 & 257	E.E.	90.00	270.00	1.40	Straight line	The measurement start from the pillar no. 24 of forest block No. 03, F.B. 99.00, B.B.279.00, Direction S.E. distance 17.40 through to chain fix pillar no. 01 of forest block no.04.
2	On the common boundary of plot no.256 & 257	S.E.	173.00	353.00	1.60	Straight line	
3	On the common boundary of plot no.256 & 257	S.W.	190.00	10.00	0.60	Straight line	
4	On the common boundary of plot no.256 & 257	S.W.	231.00	51.00	1.60	Straight line	
5	On the common boundary of plot no.256 & 257	N.W.	300.00	120.00	1.00	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	On the common boundary of plot no.256 & 257	N.E.	9.00	189.00	1.40	Straight line	
7	On the common boundary of plot no.256 & 257	N.E.	32.00	212.00	1.40	Straight line	
				Total	9.00	FOREST BLOCK NO. 4 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 5							
1	On the common boundary of plot no.411 & 1257/408	N.E.	79.00	259.00	1.40	Straight line	The measurement start from the trijunction of plot no.417, 453 & 456, F.B. 205.00, B.B.25.00, Direction S.W. distance 4.20 through to chain fix pillar no. 01 of forest block no.05.
2	On the common boundary of plot no.411 & 1257/408	S.E.	117.00	297.00	3.00	Straight line	
3	On the trijunction of plot no.418, 1257/408 & 419	S.E.	159.00	339.00	0.60	Straight line	
4	On the Quardijunction of plot no.408, 419, 422 & 1257/408	S.W.	203.00	23.00	2.30	Straight line	
5	On the common boundary of plot no.408 & 1257/408	N.W.	275.00	95.00	4.80	Straight line	
6	On the common boundary of plot no.410 & 1257/408	N.E.	8.00	188.00	2.00	Straight line	
7	On the common boundary of plot no.411 & 1257/408	N.E.	45.00	225.00	1.40	Straight line	
				Total	15.50	FOREST BLOCK NO. 5 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
FOREST BLOCK NO. 6							
1	On the trijunction of plot no.305, 310 & 311	S.E.	116.00	296.00	1.80	Straight line	The measurement start from the Quardijuntion of plot no.305, 306, 309 & 310 , F.B. 120.00, B.B.300.00, Direction S.E. distance 2.70 through to chain fix pillar no. 01 of forest block no.06.
2	On the trijunction of plot no.311, 310 & 314	S.E.	170.00	350.00	0.90	Straight line	
3	On the common boundary of plot no.311 & 314	S.E.	130.00	310.00	0.80	Straight line	
4	On the common boundary of plot no.311 & 314	S.W.	200.00	20.00	1.40	Straight line	
5	On the trijunction of plot no.301, 311 & 312	N.W.	284.00	104.00	2.40	Straight line	
6	On the Quardijuntion of plot no.301, 302, 304 & 311	N.E.	12.00	192.00	1.80	Straight line	
7	On the trijunction of plot no.304, 305 & 311	N.E.	49.00	229.00	0.40	Straight line	
8	On the common boundary of plot no.305 & 311	N.W.	350.00	170.00	0.70	Straight line	
				Total	10.20	FOREST BLOCK NO.6 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 7							
1	On the correction ridge of plot no. 1055	N.E.	3.00	183.00	2.20	Straight line	The measurement start from the trijunction of plot no.1055, 1057 & 1058, F.B. 318.00, B.B.138.00, Direction N.W. distance 5.00 through to chain fix pillar no. 01 of forest block no.07.
2	On the common boundary of plot no.1052 & 1055	N.E.	88.00	268.00	2.40	Straight line	
3	On the trijunction of plot no.1052, 1053 & 1055	N.N.	360.00	180.00	0.50	Straight line	
4	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.W.	317.00	137.00	0.70	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.W.	341.00	161.00	1.30	Straight line	
6	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.W.	285.00	105.00	1.90	Straight line	
7	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.N.	360.00	180.00	1.80	Straight line	
8	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.W.	284.00	104.00	1.80	Straight line	
9	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.W.	275.00	95.00	1.50	Straight line	
10	On the common boundary of plot no.1052 & 1053	N.N.	360.00	180.00	1.10	Straight line	
11	On the common boundary of plot no. 1051 & 1053	N.E.	8.00	188.00	1.00	Straight line	
12	On the common boundary of plot no.1051 & 1053	N.W.	308.00	128.00	1.40	Straight line	
13	On the common boundary of plot no.1051 & 1053	N.E.	58.00	238.00	0.70	Straight line	
14	On the trijunction of plot no.942, 943 & 1053	S.E.	112.00	292.00	3.80	Straight line	
15	On the common boundary of plot no.942 & 1053	S.E.	117.00	297.00	1.00	Straight line	
16	On the common boundary of plot no.942 & 1053	N.E.	15.00	195.00	0.40	Straight line	
17	On the common boundary of plot no.942 & 1053	S.E.	93.00	273.00	1.30	Straight line	
18	On the common boundary of plot no.942 & 1053	S.E.	122.00	302.00	0.90	Straight line	
19	On the common boundary of plot no.942 & 1053	S.E.	104.00	284.00	0.70	Straight line	
20	On the trijunction of plot no.942, 1053 & 1054	S.S.	180.00	360.00	2.50	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
21	On the common boundary of plot no.1053 & 1054	S.E.	110.00	290.00	0.40	Straight line	
22	On the common boundary of plot no.1053 & 1054	S.S.	180.00	360.00	1.70	Straight line	
23	On the common boundary of plot no.1053 & 1054	S.W.	195.00	15.00	1.70	Straight line	
24	On the trijunction of plot no.1053, 1054 & 1055	S.E.	106.00	286.00	1.50	Straight line	
25	On the common boundary of plot no.1054 & 1055	N.E.	12.00	192.00	2.60	Straight line	
26	On the common boundary of plot no.1054 & 1055	N.W.	357.00	177.00	3.20	Straight line	
27	On the trijunction of plot no.942, 1054 & 1055	N.N.	360.00	180.00	0.60	Straight line	
28	On the common boundary of plot no.942 & 1055	N.E.	30.00	210.00	1.00	Straight line	
29	On the trijunction of plot no.911, 942 & 1055	S.E.	107.00	287.00	2.80	Straight line	
30	On the common boundary of plot no.911 & 1055	E.E.	90.00	270.00	6.30	Straight line	
31	On the trijunction of plot no.907, 908 & 1055	S.S.	180.00	360.00	1.40	Straight line	
32	On the common boundary of plot no.907 & 1055	S.E.	144.00	324.00	3.40	Straight line	
33	On the common boundary of plot no.1055 & 867	S.E.	110.00	290.00	0.80	Straight line	
34	On the common boundary of plot no.1055 & 867	N.E.	50.00	230.00	1.00	Straight line	
35	On the common boundary of plot no.1055 & 867	S.E.	94.00	274.00	3.20	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
35/1	On the correction ridge of plot no. 1055	N.E.	5.00	185.00	1.50	Straight line	
35/2	On the correction ridge of plot no. 1055	W.W.	270.00	90.00	3.30	Straight line	
36	On the common boundary of plot no.1055 & 867	N.N.	360.00	180.00	1.90	Straight line	
37	On the trijunction of plot no.886, 887 & 1055	E.E.	90.00	270.00	7.00	Straight line	
38	On the trijunction of plot no.885, 1055 & 1089	S.E.	170.00	350.00	0.30	Straight line	
39	On the common boundary of plot no.1055 & 1089	S.E.	111.00	291.00	2.50	Straight line	
40	On the trijunction of plot no.1089, 1085 & 1055	N.E.	65.00	245.00	0.60	Straight line	
41	On the trijunction of plot no.1085, 1088 & 1089	S.E.	126.00	306.00	7.00	Straight line	
42	On the trijunction of plot no.1088, 1086 & 1085	S.E.	126.00	306.00	3.10	Straight line	
43	On the common boundary of plot no.1086 & 1085	S.E.	128.00	308.00	3.40	Straight line	
44	On the Quardijunction of plot no.1086, 1085, 1084 & 1131	S.W.	217.00	37.00	5.60	Straight line	
45	On the common boundary of plot no.1083 & 1085	S.W.	217.00	37.00	5.30	Straight line	
46	On the trijunction of plot no.1081, 1082 & 1085	N.W.	323.00	143.00	3.60	Straight line	
47	On the trijunction of plot no.1055, 1081 & 1085	S.W.	237.00	57.00	3.90	Straight line	
48	On the trijunction of plot no.1080, 1081 & 1055	N.W.	312.00	132.00	0.60	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
49	On the common boundary of plot no.1080 & 1055	N.N.	360.00	180.00	0.50	Straight line	
50	On the common boundary of plot no.1080 & 1055	N.W.	274.00	94.00	1.60	Straight line	
51	On the common boundary of plot no.1080 & 1055	N.W.	335.00	155.00	1.00	Straight line	
52	On the trijunction of plot no.1079, 1080 & 1055	N.W.	290.00	110.00	4.50	Straight line	
53	On the trijunction of plot no.1078, 1079 & 1055	N.W.	321.00	141.00	0.50	Straight line	
54	On the common boundary of plot no.1078 & 1055	N.E.	17.00	197.00	0.50	Straight line	
55	On the common boundary of plot no.1078 & 1055	N.W.	301.00	121.00	2.50	Straight line	
56	On the trijunction of plot no.1077, 1078 & 1055	N.W.	353.00	173.00	0.80	Straight line	
57	On the common boundary of plot no.1077 & 1055	N.E.	16.00	196.00	1.20	Straight line	
58	On the common boundary of plot no.1076 & 1055	N.W.	284.00	104.00	0.60	Straight line	
59	On the trijunction of plot no.1074, 1055 & 1075	N.E.	31.00	211.00	1.60	Straight line	
60	On the common boundary of plot no.1074 & 1055	N.W.	289.00	109.00	2.10	Straight line	
61	On the trijunction of plot no.1073, 1072 & 1055	N.W.	302.00	122.00	2.90	Straight line	
62	On the common boundary of plot no.1055 & 1072	S.W.	195.00	15.00	2.10	Straight line	
63	On the trijunction of plot no.1072, 1071 & 1055	W.W.	270.00	90.00	0.30	Straight line	
64	On the common boundary of plot no.1055 & 1071	S.W.	183.00	3.00	0.60	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
65	On the common boundary of plot no.1055 & 1071	S.E.	117.00	297.00	0.40	Straight line	
66	On the trijunction of plot no.1070, 1071 & 1055	S.W.	212.00	32.00	4.00	Straight line	
67	On the trijunction of plot no.1070, 1059 & 1055	N.W.	292.00	112.00	4.00	Straight line	
68	On the common boundary of plot no.1059 & 1055	N.W.	295.00	115.00	5.40	Straight line	
69	On the common boundary of plot no.1055 & 1057	N.W.	274.00	94.00	1.60	Straight line	
				Total	148.80	FOREST BLOCK NO.7 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 8							
1	On the currection ridge of plot no.983 & 1037	N.W.	347.00	167.00	0.60	Straight line	The measurement start from the quardijunction of plot no.986, 987,989 & 988, F.B. 75.00, B.B.255.00, Direction N.E. distance 3.20 through to chain fix pillar no. 01 of forest block no.08.
2	On the trijunction of plot no.982, 983 & 1037	N.E.	80.00	260.00	0.80	Straight line	
3	On the common boundary of plot no.982 & 1037	N.E.	32.00	212.00	1.50	Straight line	
4	On the trijunction of plot no.969, 982 & 1037	N.E.	49.00	229.00	6.30	Straight line	
5	On the trijunction of plot no.966, 969 & 1037	N.E.	65.00	245.00	1.10	Straight line	
6	On the common boundary of plot no.966 & 1037	S.E.	157.00	337.00	0.50	Straight line	
7	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.E.	32.00	212.00	5.80	Straight line	
8	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.E.	40.00	220.00	2.00	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.E.	12.00	192.00	2.00	Straight line	
10	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.W.	275.00	95.00	2.00	Straight line	
11	On the common boundary of plot no.966 & 1037	S.W.	225.00	45.00	0.50	Straight line	
12	On the common boundary of plot no.966 & 1037	S.W.	200.00	20.00	0.60	Straight line	
13	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.S.	280.00	100.00	1.00	Straight line	
14	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.E.	43.00	223.00	0.80	Straight line	
15	On the common boundary of plot no.966 & 1037	N.E.	48.00	228.00	4.30	Straight line	
16	On the common boundary of plot no.1037 & 951	N.E.	69.00	249.00	2.70	Straight line	
17	On the Quardijunction of plot no.951, 945, 1037 & 947	S.S.	180.00	360.00	1.80	Straight line	
18	On the common boundary of plot no.1037 & 945	S.W.	183.00	3.00	2.50	Straight line	
19	On the common boundary of plot no.1037 & 945	W.W.	270.00	90.00	0.30	Straight line	
20	On the common boundary of plot no.1037 & 945	S.S.	180.00	360.00	0.40	Straight line	
21	On the common boundary of plot no.1037 & 945	S.E.	102.00	282.00	2.20	Straight line	
22	On the trijunction of plot no.1037, 1038 & 945	S.W.	187.00	7.00	1.90	Straight line	
23	On the common boundary of plot no.1037 & 1038	S.W.	260.00	80.00	1.20	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
24	On the common boundary of plot no.1037 & 1038	S.W.	226.00	46.00	2.00	Straight line	
25	On the common boundary of plot no.1037 & 1038	S.W.	205.00	25.00	1.60	Straight line	
26	On the common boundary of plot no.1037 & 1038	S.W.	184.00	4.00	1.70	Straight line	
27	On the common boundary of plot no.1037 & 1038	S.E.	142.00	322.00	2.00	Straight line	
28	On the common boundary of plot no.1037 & 1038	S.E.	156.00	336.00	3.50	Straight line	
29	On the trijunction of plot no.1033, 1037 & 1038	S.W.	265.00	85.00	1.40	Straight line	
30	On the trijunction of plot no.1034, 1035 & 1037	N.W.	327.00	147.00	1.00	Straight line	
31	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.W.	267.00	87.00	1.00	Straight line	
32	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.W.	203.00	23.00	0.70	Straight line	
33	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	W.W.	270.00	90.00	1.70	Straight line	
34	On the common boundary of plot no.1035 & 1036	N.W.	353.00	173.00	1.10	Straight line	
35	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	N.W.	287.00	107.00	1.10	Straight line	
36	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.W.	206.00	26.00	2.20	Straight line	
37	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.E.	171.00	351.00	1.10	Straight line	
38	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.E.	119.00	299.00	1.80	Straight line	
39	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.S.	180.00	360.00	1.50	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
40	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.E.	134.00	314.00	0.80	Straight line	
41	On the common boundary of plot no.1035 & 1037	S.W.	228.00	48.00	2.50	Straight line	
42	On the trijunction of plot no.1037, 1035 & 1031	S.E.	133.00	313.00	2.30	Straight line	
43	On the common boundary of plot no.1035 & 1031	S.E.	156.00	336.00	3.60	Straight line	
44	On the common boundary of plot no.1035 & 1031	N.E.	73.00	253.00	1.20	Straight line	
45	On the common boundary of plot no.1035 & 1031	N.E.	46.00	226.00	3.50	Straight line	
46	On the common boundary of plot no.1035 & 1031	N.E.	83.00	263.00	3.60	Straight line	
47	On the common boundary of plot no.1035 & 1031	N.E.	51.00	231.00	2.40	Straight line	
48	On the common boundary of plot no.1035 & 1031	N.W.	358.00	178.00	2.00	Straight line	
49	On the common boundary of plot no.1031 & 1045	N.E.	58.00	238.00	0.40	Straight line	
50	On the trijunction of plot no.1045, 1046 & 1031	S.E.	118.00	298.00	6.20	Straight line	
51	On the trijunction of the plot no.1049, 1055 & 1031	S.E.	135.00	315.00	6.90	Straight line	
52	On the trijunction of plot no.1055, 1031 & 1063	S.W.	194.00	14.00	0.40	Straight line	
53	On the common boundary of plot no.1031 & 1063	S.E.	127.00	307.00	1.60	Straight line	
54	On the common boundary of plot no.1031 & 1063	N.E.	59.00	239.00	2.80	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
55	On the common boundary of plot no.1031 & 1063	N.E.	45.00	225.00	1.80	Straight line	
56	On the common boundary of plot no.1031 & 1063	S.E.	117.00	297.00	7.00	Straight line	
57	Inside the plot no.1031mi	S.E.	113.00	293.00	6.00	Straight line	
58	Inside the plot no.1031mi	N.E.	28.00	208.00	1.00	Straight line	
59	On the common boundary of plot no.1064 & 1031	N.E.	67.00	247.00	1.50	Straight line	
60	On the common boundary of plot no.1064 & 1031	N.E.	38.00	218.00	2.80	Straight line	
61	On the trijunction of plot no.1031, 1064 & 1067	N.E.	80.00	260.00	1.20	Straight line	
62	On the common boundary of plot no.1031 & 1067	N.E.	56.00	236.00	1.00	Straight line	
63	On the trijunction of plot no.1031,1121 & 1067	S.E.	176.00	356.00	1.40	Straight line	
64	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	S.W.	198.00	18.00	3.50	Straight line	
65	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	S.W.	205.00	25.00	2.00	Straight line	
66	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	S.W.	215.00	35.00	2.20	Straight line	
67	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	E.E.	90.00	270.00	0.40	Straight line	
68	On the trijunction of plot no.1031, 1121 & 1030	E.E.	90.00	270.00	1.00	Straight line	
69	On the common boundary of plot no.1030 & 1121	N.E.	45.00	225.00	0.60	Straight line	
70	On the common boundary of plot no.1030 & 1121	S.E.	136.00	316.00	0.50	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
71	On the common boundary of plot no.1030 & 1121	S.W.	193.00	13.00	2.50	Straight line	
72	On the trijunction of plot no.1030, 1029 & 1121	N.W.	297.00	117.00	0.60	Straight line	
73	On the common boundary of plot no.1029 & 1030	S.W.	210.00	30.00	0.50	Straight line	
74	On the trijunction of plot no.1031, 1030 & 1029	S.E.	105.00	285.00	0.60	Straight line	
75	On the trijunction of plot no.1029, 1121 & 1031	S.W.	195.00	15.00	3.20	Straight line	
76	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	S.E.	122.00	302.00	1.20	Straight line	
77	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	S.W.	222.00	42.00	2.60	Straight line	
78	On the common boundary of plot no.1031 & 1121	S.W.	196.00	16.00	3.40	Straight line	
79	On the trijunction of plot no.1075, 1121 & 1265/1173	N.W.	325.00	145.00	2.40	Straight line	
80	On the common boundary of plot no.1265/1173 & 1175	S.W.	234.00	54.00	1.60	Straight line	
81	On the trijunction of plot no.1265/1173, 1174 & 1175	N.W.	318.00	138.00	0.70	Straight line	
82	On the common boundary of plot no.1175 & 1174	N.E.	17.00	197.00	2.00	Straight line	
83	On the common boundary of plot no.1175 & 1174	S.W.	220.00	40.00	4.60	Straight line	
84	On the common boundary of plot no.1175 & 1174	S.E.	155.00	335.00	2.80	Straight line	
85	On the common boundary of plot no.1175 & 1265/1173	S.W.	240.00	60.00	0.70	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
86	On the common boundary of plot no.1175 & 1265/1173	N.W.	285.00	105.00	0.70	Straight line	
87	On the common boundary of plot no.1175 & 1265/1173	S.W.	235.00	55.00	2.80	Straight line	
88	On the common boundary of plot no.1175 & 1265/1173	S.E.	163.00	343.00	1.80	Straight line	
89	On the trijunction of plot no.1175, 1265/1173 & 1180	S.W.	205.00	25.00	3.40	Straight line	
90	On the common boundary of plot no.1175 & 1180	S.W.	251.00	71.00	3.00	Straight line	
91	On the common boundary of plot no.1175 & 1180	N.W.	281.00	101.00	0.60	Straight line	
92	On the common boundary of plot no.1175 & 1180	S.E.	128.00	308.00	0.90	Straight line	
93	On the common boundary of plot no.1175 & 1180	S.W.	197.00	17.00	8.90	Straight line	
94	On the trijunction of plot no.1175, 1180 & 1179	S.W.	210.00	30.00	1.40	Straight line	
95	On the trijunction of plot no.1175, 1180 & 1179	S.W.	212.00	32.00	4.00	Straight line	
96	On the common boundary of plot no.1175 & 1180	S.W.	211.00	31.00	7.20	Straight line	
97	On the plot no.1175 & boundary of 1180	S.W.	244.00	64.00	3.00	Straight line	
98	On the border of village Bardiya & plot no.1175	S.W.	267.00	87.00	1.00	Straight line	
99	On the border of village Bardiya & plot no.1175, 1027	N.N.	360.00	180.00	0.50	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
100	On the trijunction of plot no.1175, 1027 & 1031	S.W.	278.00	98.00	1.90	Straight line	
101	On the common boundary of plot no.1027 & 1031	S.S.	180.00	360.00	0.90	Straight line	
102	On the common boundary of plot no.1027, 1031 & boundary of village Bardiya	S.W.	268.00	88.00	6.80	Straight line	
103	On the border of village Bardiya & plot no.1031	S.W.	245.00	65.00	6.70	Straight line	
104	On the border of village Bardiya & plot no.1031	N.W.	271.00	91.00	4.60	Straight line	
105	On the border of village Bardiya & plot no.1031	S.W.	200.00	20.00	3.20	Straight line	
106	On the border of village Bardiya & plot no.1031	S.W.	244.00	64.00	3.90	Straight line	
107	On the border of village Bardiya & plot no.1031	N.W.	298.00	118.00	13.20	Straight line	
108	On the border of village Bardiya & plot no.1031	N.W.	349.00	169.00	2.20	Straight line	
109	On the border of village Bardiya & plot no.1031	N.W.	297.00	117.00	7.80	Straight line	
110	On the border of village Bardiya & plot no.1031 & 1026	N.E.	5.00	185.00	3.60	Straight line	
111	On the common boundary of plot no.1026 & 1031	N.W.	280.00	100.00	6.50	Straight line	
112	On the trijunction of plot no. 1026, 528 & 1031	N.E.	6.00	186.00	1.20	Straight line	
113	On the common boundary of plot no.528 & 1031	N.E.	46.00	226.00	1.80	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
114	On the trijunction of plot no. 1025, 528 & 1031	S.E.	118.00	298.00	1.40	Straight line	
115	On the common boundary of plot no.1025 & 1031	N.E.	60.00	240.00	0.80	Straight line	
116	On the trijunction of plot no. 1024, 1025 & 1031	S.E.	110.00	290.00	2.50	Straight line	
117	On the common boundary of plot no.1024 & 1031	S.E.	121.00	301.00	1.40	Straight line	
118	On the common boundary of plot no.1022 & 1031	N.E.	52.00	232.00	1.60	Straight line	
119	On the common boundary of plot no.1024 & 1031	N.E.	88.00	268.00	1.70	Straight line	
120	On the trijunction of plot no.1022 , 1024 & 1031	N.E.	80.00	260.00	1.50	Straight line	
121	On the common boundary of plot no.1022 & 1031	N.E.	24.00	204.00	1.00	Straight line	
122	On the trijunction of plot no.1021, 1022 & 1031	S.E.	116.00	296.00	2.00	Straight line	
123	On the common boundary of plot no.1021 & 1031	S.E.	116.00	296.00	2.00	Straight line	
124	On the common boundary of plot no.1021 & 1031	N.E.	5.00	185.00	1.80	Straight line	
125	On the common boundary of plot no.1020 & 1031	N.W.	310.00	130.00	2.00	Straight line	
126	On the quardijunction of plot no.1018, 1019, 1020 & 1031	N.E.	95.00	275.00	1.20	Straight line	
127	On the common boundary of plot no.1018 & 1031	N.E.	50.00	230.00	1.80	Straight line	
128	On the trijunction of plot no.1018, 1017 & 1031	N.E.	12.00	192.00	0.60	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
129	On the common boundary of plot no.1017 & 1031	N.W.	309.00	129.00	4.20	Straight line	
130	On the trijunction of plot no.1016, 1017 & 1031	N.E.	15.00	195.00	2.60	Straight line	
131	On the trijunction of plot no.1016, 1014 & 1031	N.W.	318.00	138.00	1.50	Straight line	
132	On the trijunction of plot no.1014, 1013 & 1031	N.E.	5.00	185.00	1.40	Straight line	
133	On the trijunction of plot no.1012, 1013 & 1031	N.E.	9.00	189.00	2.30	Straight line	
134	On the trijunction of plot no.1011, 1012 & 1031	N.N.	360.00	180.00	2.30	Straight line	
135	On the trijunction of plot no.1010, 1011 & 1031	N.W.	338.00	158.00	2.00	Straight line	
136	On the common boundary of plot no.1010 & 1031	N.W.	308.00	128.00	2.00	Straight line	
137	On the trijunction of plot no.1009, 1010 & 1031	N.E.	20.00	200.00	1.80	Straight line	
138	On the trijunction of plot no.1009, 1008 & 1031	N.E.	24.00	204.00	3.00	Straight line	
139	On the common boundary of plot no.1008 & 1031	N.W.	298.00	118.00	1.50	Straight line	
140	On the trijunction of plot no.1007, 1008 & 1031	N.E.	76.00	256.00	1.70	Straight line	
141	On the common boundary of plot no.1007 & 1031	N.N.	360.00	180.00	0.70	Straight line	
142	On the trijunction of plot no.1006, 1007 & 1031	S.E.	105.00	285.00	2.60	Straight line	
143	On the common boundary of plot no.1006 & 1031	N.E.	20.00	200.00	7.20	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
144	On the common boundary of plot no.999 & 1031	S.E.	103.00	283.00	6.00	Straight line	
145	On the common boundary of plot no.999 & 1031	N.E.	83.00	263.00	2.00	Straight line	
146	On the common boundary of plot no.999 & 1031	N.W.	347.00	167.00	2.70	Straight line	
147	On the common boundary of plot no.999 & 1031	N.E.	30.00	210.00	2.10	Straight line	
148	On the common boundary of plot no.999 & 1031	N.E.	39.00	219.00	1.80	Straight line	
149	On the trijunction of plot no.998, 999 & 1031	N.E.	49.00	229.00	1.70	Straight line	
150	On the common boundary of plot no.997 & 1031	N.E.	23.00	203.00	4.80	Straight line	
151	On the trijunction of plot no. 997, 1031 & 1037.	N.W.	320.00	140.00	10.00	Straight line	
				Total	366.40	FOREST BLOCK NO. 8 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
FOREST BLOCK NO. 9							
1	On the common boundary of plot no.1065 & 1067	N.W.	349.00	169.00	1.10	Straight line	The measurement start from the pillar no. 61 of forest block no.8, F.B. 334.00, B.B.154.00, Direction N.W. distance 3.70 through to chain fix pillar no. 01 of forest block no.09.
2	On the common boundary of plot no.1065 & 1067	N.E.	43.00	223.00	1.20	Straight line	
3	On the common boundary of plot no.1065 & 1067	N.W.	336.00	156.00	1.20	Straight line	
4	On the trijunction of plot no.1065, 1067 & 1068	N.E.	38.00	218.00	1.70	Straight line	
5	On the common boundary of plot no.1067 & 1068	S.E.	114.00	294.00	0.70	Straight line	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	On the common boundary of plot no.1067 & 1068	E.E.	90.00	270.00	1.20	Straight line	
7	On the common boundary of plot no.1067 & 1068	S.E.	113.00	293.00	0.80	Straight line	
8	On the common boundary of plot no.1067 & 1068	S.E.	167.00	347.00	0.60	Straight line	
9	On the common boundary of plot no.1067 & 1068	S.W.	189.00	9.00	3.30	Straight line	
10	Inside the plot no.1067mi	N.W.	276.00	96.00	2.30	Straight line	
				Total	14.10	FOREST BLOCK NO. 9 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
AGRICULTURE BLOCK NO. 1							
1	Inside the plot no.1037mi	S.E.	129.00	309.00	0.70	Straight line	The measurment start from the pillar no. 05 of forest block no.08, F.B. 114.00, B.B.294.00, Direction N.E. distance 0.50 through to chain fix pillar no. 01 of Agriculture block no.01.
2	Inside the plot no.1037mi	S.W.	211.00	31.00	3.30	Straight line	
3	Inside the plot no.1037mi	S.E.	131.00	311.00	1.90	Straight line	
4	Inside the plot no.1037mi	S.W.	191.00	11.00	2.70	Straight line	
5	Inside the plot no.1037mi	S.W.	208.00	28.00	2.40	Straight line	
6	Inside the plot no.1037mi	N.W.	305.00	125.00	4.70	Straight line	
7	Inside the plot no.1037mi	N.E.	36.00	216.00	2.70	Straight line	
8	Inside the plot no.1037mi	N.E.	40.00	220.00	5.50	Straight line	
				Total	23.90	AGRICULTURE BLOCK NO. 1 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
AGRICULTURE BLOCK NO. 2							
1	Inside the plot no.1055mi	N.E.	28.00	208.00	2.00	Straight line	The measurement start from the pillar no. 62 of forest block no.08, F.B. 100.00, B.B.280.00, Direction S.E. distance 4.20 through to chain fix pillar no. 01 of Agriculture block no.02.
2	Inside the plot no.1055mi	S.E.	115.00	295.00	2.90	Straight line	
3	Inside the plot no.1055mi	N.E.	23.00	203.00	3.20	Straight line	
4	On the common boundary of plot no. 1055 & 1085	S.E.	151.00	331.00	5.40	Straight line	
5	On the common boundary of plot no.1055 & 1085	S.W.	215.00	35.00	5.80	Straight line	
6	Inside the plot no.1055mi	N.W.	315.00	135.00	4.10	Straight line	
7	Inside the plot no.1055mi	N.E.	36.00	216.00	1.90	Straight line	
8	Inside the plot no.1055mi	N.W.	299.00	119.00	2.60	Straight line	
				Total	27.90	AGRICULTURE BLOCK NO. 2 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	
AGRICULTURE BLOCK NO. 3							
1	On the common boundary of plot no.1028 & 1031	N.E.	51.00	231.00	1.70	Straight line	The measurement start from the pillar no. 85 of forest block no.08, F.B. 346.00, B.B.166.00, Direction N.W. distance 6.00 through to chain fix pillar no. 01 of Agriculture block no.03.
2	On the common boundary of plot no.1028 & 1031	S.E.	126.00	306.00	1.70	Straight line	
3	On the common boundary of plot no.1028 & 1031	S.W.	218.00	38.00	2.00	Straight line	
4	On the common boundary of plot no.1028 & 1031	N.W.	312.00	132.00	2.10	Straight line	
				Total	7.50	AGRICULTURE BLOCK NO. 3 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	

1	2	3	4	5	6	7	8
AGRICULTURE BLOCK NO. 4							
1	Inside the plot no.1031mi	N.W.	300.00	120.00	1.30	Straight line	The measurement start from the pillar no. 83 of forest block no.08, F.B. 293.00, B.B.113.00, Direction N.W. distance 2.90 through to chain fix pillar no. 01 of Agriculture block no.04.
2	Inside the plot no.1031mi	N.N.	360.00	180.00	2.00	Straight line	
3	Inside the plot no.1031mi	S.E.	120.00	300.00	1.30	Straight line	
4	Inside the plot no.1031mi	S.S.	180.00	360.00	2.00	Straight line	
				Total	6.60	AGRICULTURE BLOCK NO. 4 CLOSED WITH PILLAR NO. 1	

By order,
MANOJ SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.

SCHEDULE "B"

Village-Senduriya, Pargana-Agori, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra

1	Name of number of the forest in which the rights can be exercised in their open parts	
2	Name of Pargana	Agori
3	Name of Village in which concessions exist	Senduriya
3a	Number of houses	325
3b	Population	2365
3c	Number of Families	337
3d	Number of ploughs	10
4	Number of Animals availing free grazing	225
5	Housing (Cheed of Sal)	-
5a	Housing (Other wood)	-
6	Wood for agriculture	-
7	Dry fire wood (SarBojh)	Facility (If available)
8	Quantity of Coal for Iron smith	-
9	Other Woods	-
10	Fodder	Facility (If available)
11	Fodder for sale	-

12	Thaching grass for huts	Facility (If available)
13	Bhabhar/Munj	-
14	Green Fodder	-
15	Dry Leaves	-
16	Fruits and Roots	-
17	Barks <i>etc.</i>	-
18	Bamboo (Kodies) per year	-
19	Building Stone	-
20	State Stone	-
21	Lime Stone	-
22	Irrigation Drains	-
23	Water for Mills	-
24	Fishing	-
25	ShamshanGhat	-
26	Remarks	-

By order,
 MANOJ SINGH,
Apar Mukhya Sachiv.